



AKSH OPTIFIBRE LIMITED

A - 32, 2nd Floor, Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road,

New Delhi-110044, INDIA

Tel.: +91-11-49991700, 49991777 Fax: +91-11-49991800

E-mail: aksh@akshoptifibre.com Website: www.akshoptifibre.com CIN NO. L24305RJ1986PLC016132

August 07, 2021

To,

National Stock Exchange of India Limited	BSE Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,	Phiroze Jeejeebhoy Towers
Bandra(E), Mumbai – 40005	Dalal Street, Bombay-400 001

<u>Subject: Submission pursuant to Regulation 30 & Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirement) Regulation, 2015.</u>

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed copies of Newspaper Publication of "Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2021" published in "The Financial Express" and "Lokmat" on August 07, 2021, in compliance with Regulation 30 & 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirement) Regulation, 2015.

Kindly acknowledge the same.

For Aksh Optifibre Limited

Gaurav Mehta

Chief-Corporate Affairs & Company Secretary

FINANCIAL EXPRESS



NOTICE CUM ADDENDUM NO. 48 / 2021

NOTICE - CUM - ADDENDUM TO THE STATEMENT OF ADDITIONAL INFORMATION ("SAI") OF BARODA MUTUAL FUND ("BARODA MF")

Cessation of Associate Director of AMC

Investors are requested to note that Mr. Rajneesh Sharma, Associate Director of Baroda Asset Management India Limited ("AMC") has ceased to be the Director of the AMC with effect from August 1, 2021.

Accordingly, details of Mr. Rajneesh Sharma, shall be deleted under the section titled (I) -Information about the Sponsor, AMC and Trustee Company - (D) - Asset Management Company - (i) Details of AMC Directors.

In view of the above, relevant changes shall be carried out in SAI of Baroda MF. All the other features and terms & conditions of SAI shall remain unchanged. This Notice-cum-Addendum shall form an integral part of the SAI of the Baroda MF.

(Investment Manager to Baroda Mutual Fund)

Authorised Signatory

For further details, kindly contact:

CIN: U65991MH1992PLC069414 501, Titanium, 5th Floor, Western Express Highway, Goregaon (East), Mumbai - 400 063,

Tel. No.: +91 22 6848 1000 • Toll Free No.: 1800 267 0189 Visit us at : www.barodamf.com . Email : info@barodamf.com



TANEJA AEROSPACE AND AVIATION LIMITED Regd. Office: Belagondapalli Village, Thally Road, Denkanikottai Taluk, Krishnagiri Dist.,

Belagondapalli - 635114, Tamil Nadu, India | Phone : 04347-233508, Fax : 04347-233414 E-mail: secretarial@taal.co.in | Website: www.taal.co.in | CIN: L62200TZ1988PLC014460

	EXTRACT OF THE STATEMENT OF CONSOLIDTED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2021							
			(INR in Lac	s, unless oth	erwise stated)			
Sr.	C PRINCIPLES	Season and	Quarter Ended	lines essend	Year Ended			
No.	Particulars	30-Jun-21	30-Jun-20	31-Mar-21	31-Mar-21			
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)			
1 2	Total Income from operations (Net) Net Profit / (Loss) for the period	622.04	595.33	979.41	3,481,50			
3	(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax	232.60	109.72	202.10	826.79			
4	(after Exceptional and/or Extraordinary Items) Net Profit / (Loss) for the period after tax	232.60	109.72	202.10	826.79			
5	(after Exceptional and/or Extraordinary items)	198.91	90.16	101.16	621.85			
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	198.91	90.16	99.43	620.12			
6	Equity share capital	1,246.54	1,246.54	1,246.54	1,246.54			
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	16 33 5 3	55 - 0	10	9,210.06			

1 Additional information on standalone financial results is as follows:

(of Rs. 5/- each) (not annualised) (INR)

Particulars		rear Ellue		
	30-Jun-21	30-Jun-20	31-Mar-21	31-Mar-21
Revenue from Operations	597.61	593.88	960.83	3,452.0
Profit before tax	232.61	109.73	203.01	827.6
Profit after tax	198.92	90.17	102.07	622.7

Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and also on the Company's website (www.taal.co.in). The above results have been reviewed by the Audit Committee & approved by the Board of Directors at their

respective meetings held on August 05, 2021.

Place : Bangalore Date: August 05, 2021

Ramesh Jaiswara Whole Time Director

2.49

ANUH PHARMA LTD. CIN: L24230MH1960PLC011586

Tel: +91 22 6622 7575; Fax: +91 22 6622 7600; Email: anuh@sk1932.com; Website: www.anuhpharma.com

Sr. No.	Particulars	3 months ended 30.06.2021 Unaudited	3 months ended 31.03.2021 Audited	3 months ended 30.06.2020 Unaudited	12 months ended 31.03.2021 Audited
1.	Total Revenue from Operation	11,727.17	9,714.69	12,424.77	43,196.01
2.	Net Profit/(Loss) for the period before tax	711.43	166.07	2,230.16	3,855.14
3.	Net Profit/(Loss) for the period after Tax	559.03	89.69	1,672.10	2,843.63
4.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	555.54	97.62	1,682.69	2.843.63
5.	Paid up Equity Share Capital	March 17 Waller	100000000	200000000000000000000000000000000000000	10000000000000
	(face value of Rs 5/- per share)	2,505.60	2,505.60	1,252.80	2,505.60
6. 7.	Other Equity (Excluding revaluation reserve) Earnings per equity share (Non annualised) (In Rs.) (Refer note no. 3 below)		1.4	*	16,558.75
	- Basic Rs.	1.12	0.18	3.34	5.67
	- Diluted Rs.	1.12	0.18	3.34	5.67

. The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the guarter ended on June 30,2021, filed with the Stock Exchange as per Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter ended on June 30, 2021 is available on the Stock Exchange website viz , www.bseindia.com

paid-up Borius Equity Shares in the ratio of 1:1 to all registered shareholders as on the record date. Consequently, in accordance with Ind AS 33 "Earnings per Share", the basic and diluted earnings per share for all the periods presented above have been adjusted to give effect to the aforesaid issue of Bonus Shares.

Place: Mumbai Dated : August 06, 2021

9

INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LIMITED (A Government of India Enterprise) CIN: L65910DL1986G0I026363

Regd. Office: Room Nos. 1316 - 1349, 3rd Floor, Hotel The Ashok Future On Track Diplomatic Enclave, 50-B. Chanakyapuri, New Delhi - 110021 Ph: 011-24100385, Email: investors@irfc.nic.in, Web: www.irfc.nic.in

NOTICE

(For the attention of equity shareholders of Indian Railway Finance Corporation Limited) In order to enable sending of notices and other statutory communications/benefits to shareholders in electronic form, we request the members of Indian Railway Finance Corporation Limited who have not yet registered their email address or bank account details, to register the same in respect of equity shares held in electronic form with the concerned Depository through their Depository Participant(s) and in respect of shares held in physical form by writing to the company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd, at irfc@beetalfinancial.com or to their address at Beetal House, 3rd Floor, 99 Madangir, Behind Local Shopping Centre, Near Dada Harsukhdas Mandir, New Delhi- 110062, Phone- 91-11-2996 1281-83, Fax-91-11-2996 1284.

Pursuant to the General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, the General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and the General No. 02/2021 dated January 13, 2021 issued by Ministry of Corporate affairs the Company has additionally enabled a process for the limited purpose of receiving shareholder communications including annual report and notice of the Annual General Meeting (including remote e-voting instructions) electronically during their financial year 2021-22. and the Members may temporarily update their email address by writing to the company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd, at irfc@beetalfinancial.com. For Indian Railway Finance Corporation Ltd

Vijay Shirode

Place: New Delhi **Company Secretary** Date: 06.08.2021



Place: Pune

INDIGO PAINTS LIMITED

(formerly known as Indigo Paints Private Limited) Registered Office: Indigo Tower, Street-5, Pallod Farm-2, Baner Road, Pune-411045, Maharashtra CIN: U24114PN2000PLC014669

Extract of unaudited financial results for the quarter ended June 30, 2021 (All amounts in rupees lakhs, unless otherwise stated)

Sr.		Quarte	Quarter ended Ye		
No.	Particulars	Jun 30, 2021 (Unaudited)	Jun 30, 2020 (Refer note 2)		
1	Total income from operations (net)	15,602.42	10,458.03	72,332.47	
2	Net profit for the period before exceptional items *	1,558.00	1,221.52	9,790.72	
3	Net profit for the period before tax *	1,558.00	1,221.52	9,790.72	
4	Net profit for the period after tax *	1,160.75	839.91	7,085.01	
5	Total comprehensive income for the period	1,158.03	839.91	7,074.14	
6	Equity share capital	4,756.90	2,902.22	4,756.90	
7	Reserves excluding revaluation reserves as at Balance Sheet date			51,592.07	
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (not annualised) - Basic - Diluted	2.44 2.44	1.86 1.84	15.55 15.54	

 The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results is available on the Stock Exchange websites (URL: https://www.nseindia.com, https://www.bseindia.com) and also on the Company's website (URL: https://www.indigopaints.com).

2. The financial results for the quarter ended June 30, 2020 have not been reviewed by the Statutory auditor of the Company, however the management has exercised necessary due diligence to ensure that the financial results for the period provide a true and fair view of the For Indigo Paints Limited

> Hemant Jalan Chairman & Managing Director

Date: August 06, 2021 DIN: 00080942 **MAGNUM VENTURES LIMITED**

CIN: L21093DL1980PLC010492

Regd. Office: HNO-MN01, Hub and Oak, E-14, Lower Ground Floor, Defence Colony, New Delhi-110024 Tel: +91-11-42420015 E-mail: magnumventures@gmail.com Website: www.magnumventures.in

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2021

Particulars		k	Year Ended	
	30.06.2021	31.03.2021	30.06.2020	31.03.2021
	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
Total income from operations (net)	5035	7730	246	18241
Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(71)	822	(711)	20
Net Profit/ (Loss) for the period before tax(after Exceptional and/or Extraordinary items)	(71)	822	(711)	20
Net Profit/ (Loss) for the period after tax(after Exceptional and/or Extraordinary items)	(71)	936	(711)	134
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(71)	963	(711)	161
Equity Share Capital	3760.1884	3760.1884	3760.1884	3760.1884
Other Equity (Reserves) excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year	-	-	-	(9432.83)
Earnings Per Share (of Rs 10/- each) (for continuing and discontinued operations)				
Basic:	(0.19)	2.56	(0.189)	0.43
Diluted:	(0.19)	2.56	(0.189)	0.43

The Above financial results for the quarter ended June 30, 2021 were reviewed by Audit Committee and thereafte approved and taken on record by the Board of Directors at their meeting held on August 06, 2021 and also have been reviewed by the Statutory Auditors


The above is an extract of the detailed format of the financial results for the quarter ended June 30, 2021 filed with the Stock Exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the financial results for the quarter ended June 30, 2021 is available on the website of BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on Company's website www.magnumventures.in


Nil investors complaint was pending at the beginning of the quarter, During the quarter no complaint was received, Nil Complaint was pending as on June 30, 2021.


Diluted

By the order of the Board For Magnum Ventures Limited **Abhey Jain** Whole-time Director









EXTRACT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2021 Rs. In lakhs except per share data

0.27

0.10

S.	DM 29	Qu	Year Ended		
No.	Particulars	Jun/21 (Unaudited)	Mar/21 (Unaudited)	Jun/20 (Unaudited)	Mar/21 (Audited)
t,	Total income from operations	7,600.22	6,799.16	4,934.08	27,643.35
2.	Net loss for the period (before tax and exceptional items)	84.26	(377.06)	(1,272.83)	(2,418.39)
3.	Net loss for the period before tax (after exceptional items)	84.26	(464.48)	(1,273.43)	(2,505.55)
4.	Net loss for the period after tax (after exceptional items)	(60.08)	(522.29)	(1,107.44)	(2,539.17)
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	29.29	(818.25)	(1,157.59)	(2,428.98)
6.	Paid-up Equity Capital (Face Value Rs. 5 each)	8,134.90	8,134.90	8,134.90	8,134.90
7.	Other equity				2,181.21
8.	Earnings Per Share (of Rs. 5/- each) Basic : Diluted:	(0.04) (0.04)	(0.32) (0.32)	(0.68) (0.68)	(1.56) (1.56)

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations 2015. The full format of the Quarter ended results are available on the Company's website i.e. www.akshoptifibre.com and on the stock exchange websites i.e. www.bseindia.com & www.nseindia.com

> For Aksh Optifibre Limited Dr. Kailash S. Choudhari

For and on behalf of the Board of Directors

Chairman DIN: 00023824

MF RULES AMENDED

Sebi asks AMCs to invest in NFO depending on risk

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, August 6

SEBI HAS AMENDED mutual fund rules, which require fund houses to invest in their own schemes depending on the risk level to ensure 'skin in the game'. The current rule requires an investment of 1% of the amount raised in a new fund offer (NFO) or an amount

of ₹50 lakh, whichever is less. In a notification,

Sebi said asset management companies (AMCs) will have to invest in their own schemes based on its risk level. "The asset management company shall invest such amounts in such schemes of the mutual fund, based on risks associated with the schemes, as may be specified by the board from time to time," Sebi said. However, the regulator has not quantified the minimum amount that needs to be invested by fund houses.



Sebi has not quantified the minimum amount that needs to be invested by fund houses

According to market experts, fund houses will have to invest more in riskier schemes like equity funds compared to less risky offers like debt funds.

In case of violation of new provisions, Sebi may pass an order suspending the launch of any scheme of a mutual fund for a period not exceeding one year and forfeit the amount invested by an asset management company in any of its schemes. This is subject to the condition that the no order will be passed without giving an opportunity of hearing to the party, the regu-

The new mutual fund rules will come into force on the 270th day from the date of their publication in the official Gazette, according to the notification dated August 5.

In June, Sebi's board had approved amendment to mutual fund rules to provide for investment of a minimum amount as 'skin in the game' in the MF schemes by AMCs based on the risk, instead of the current requirement of 1% of the amount raised in NFO or ₹50 lakh, whichever is

In a separate notification dated August 3, the regulator said it will have the right to investigate into complaints received from investors and clients in respect of the rating of securities.

Sebi will have the power to "investigate into complaints received from investors and clients in respect of the rating of securities or any other person on any matter having a bearing on activities of credit rating agency which relate to the rating of securities that are listed or proposed to be listed on a stock exchange".

Sebi to scrap certain disclosure requirements for promoters upon share acquisition

PRESS TRUST OF INDIA Mumbai, August 6

> **SEBI ON FRIDAY** decided to do away with certain disclosure requirements for acquirers and promoters of companies, and also amend norms that will help boost the corporate bond market. At its meeting here on Friday, the Sebi board gave its nod for amending the takeover regulations in view of the implementation of the System Driven Disclosures (SDD). Certain disclosure obligations for

the acquirers/promoters, etc, pertaining to acquisition or disposal of shares aggregating to 5% and any change of 2% thereafter, annual shareholding disclosures and creation/invocation/ release of encumbrance registered in depository systems under takeover regulations" would be done away with

from April 1, 2022. In a release issued after the board meet-

ing, Sebi said the relaxations would be done due to implementation of SDD. Under SDD, relevant disclosures are disseminated by the stock exchanges based on aggregation of data from the depositories without human intervention."The SDD for the said disclosures is already in place and runs parallel with the submission of physical disclosures under the takeover regulations, the release said. The obligation for physical disclosures would be done away with effect from April 1, 2022. Separately, the regulator would amend

the regulations pertaining to listing obligations and disclosure requirements. These relate to issuers who have listed non-convertible debt securities, non-convertible redeemable preference shares, perpetual debt instruments and/ or perpetual noncumulative preference shares.

S&P revises Indian Bank's rating outlook to 'stable' **FE BUREAU**

Chennai, August 6

S&P GLOBAL RATINGS has revised its rating outlook on Chennai-based public sector lender Indian Bank to stable from negative. At the same time, the rating agency affirmed its 'BBB-'long-term and 'A-3' short-term issuer credit ratings on the bank.

the rating outlook to reflect its view of Indian Bank's strengthened capital position stem-

0.14

ming from its recent equity capital raising through qualified institutional investors, and

its improving profitability. The stable

outlook reflects S&P's expectation that the likelihood of support from the central government to Indian Bank will remain very high over the next 24



strengthened capital position should be able to weather asset quality pressures while the bank maintains its financial profile in line with its ratings. In its view, Indian Bank is likely to

maintain its solid funding and liquidity profile over the next 18-24 months. "In our view, the stronger capital

position should give the bank sufficient cushion against potential asset quality pressures from the brunt of a Covid-19 second wave, our baseline expectation is for Indian Bank's weak loans (gross non-performing loans plus restructured loans) to stay below 12% of total loans, and credit costs not materially worse than 2%,

it said. The rating agency forecast that the pre-diversification risk-adjusted capital (RAC) ratio for Indian Bank to trend above 5% despite its assumption of 10%-12% annual credit growth and elevated credit costs over the next 12-24 months.

Muthoot Fin reports 14% rise in Q1 consolidated net

NBFC MUTHOOT FINANCE on Friday reported a 14% year-onyear (y-o-y) increase in its first quarter consolidated net profit to ₹979 crore, largely due to good performance of the gold loan division. Consolidated loan assets under management increased 25% y-o-y to ₹58,135 crore against

total income of the gold loan division decreased by 4% to ₹2,715 crore and the net profit declined by 3% quar ter-on-quarter, from ₹996 crore reported in Q4 FY21 Loan assets under manage-₹46,501 crore in the yearment fell by ₹145 crore q-oq as the company decided to go slow on non-gold busi-**—FE BUREAU** ness.

division increased 16% y-

o-y to ₹ 971 crore, and the

share in the consolidated

On a sequential basis, the


profit increased to 99%.

The company said the net profit of the gold loan New Delhi

ago period.

Place : Mumbai Date : August 06, 2021

financiale



For Baroda Asset Management India Limited Place: Mumbai Date : August 06, 2021

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

Baroda Asset Management India Limited

The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchange under

For Taneja Aerospace and Aviation Limited

Regd. Office: 3-A, North Wing, Shiv Sagar Estate, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai-400018

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2021

Sr. No.	Particulars	3 months ended 30.06.2021 Unaudited	3 months ended 31.03.2021 Audited	3 months ended 30,06,2020 Unaudited	12 months ended 31,03,2021 Audited
1.	Total Revenue from Operation	11,727.17	9.714.69	12,424.77	43,196.01
2.	Net Profit/(Loss) for the period before tax	711.43	166.07	2,230.16	3,855.14
3.	Net Profit/(Loss) for the period after Tax	559.03	89.69	1,672.10	2,843.63
4.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	555.54	97.62	1,682.69	2,843.63
5.	Paid up Equity Share Capital (face value of Rs 5/- per share)	2,505.60	2,505.60	1,252,80	2,505.60
6.	Other Equity (Excluding revaluation reserve)	2,303.00	2,505.00	1,202.00	16,558.75
7.	Earnings per equity share (Non annualised) (In Rs.) (Refer note no. 3 below)				5 5 A TO S C 6 5 C 5
	- Basic Rs.	1.12	0.18	3.34	5.67
	- Diluted Rs.	1.12	0.18	3.34	5.67

Particulars	3 months	3 months	3 months	12 months
	ended	ended	ended	ended
	30.06.2021	31.03.2021	30,06,2020	31,03,2021
	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
EBITDA	1,028.16	562.46	2,648.00	5,512.17
% of EBITDA Margin	8.77	5.79	21.31	12.76
EBITDA (Adjusted to Forex gain / loss and mark to market on Investment in Mutual funds)	1,049.59	526.37	2,736.53	5,372.46

On 22/09/2020, the Company passed a circular resolution for allotment of 2,50,56,000 Equity Shares of Rs. 5/- each as fully

Sd/-Ritesh Shah \Vivek Shah Joint Managing Director (DIN: 02496729) \(DIN: 02878724)

Place: Ghaziabad Date: 06.08.2021

PATEL ENGINEERING LTD. CIN:L99999MH1949PLC007039 Regd. Office: Patel Estate Road, Jogeshwari (W), Mumbai- 400 102 Tel No. +91 22 26767500, 26782916 | Fax +91 22 26782455, 26781505 | Email: investors@pateleng.com | Website: www.pateleng.com

EXTRACTS OF UN-AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2021 Rs. in Crores (except EPS) Standalone Consolidated Quarter Quarter Year Quarter Quarter Quarter Year ended ended ended ended ended ended ended ended **Particulars** June 30, June 30, March 31 June 30, March 31 March 31 June 30, March 31 2021 2021 2020 2021 2021 2021 2020 2021 Unaudited Unaudited Jnaudited Audited Unaudited Unaudited Unaudited Audited Total Income from Operation (Net) 226.12 666.25 733.58 276.04 1,994.79 575.35 623.50 1,719.12 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional items and / or Extraordinary items) 8.56 (129.65)10.74 (10.88)(121.13)(14.71)(33.43)(37.27)Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 10.74 (104.79)(37.27)(215.04)8.56 (228.88)(33.43)(343.82)Profit / (Loss) for the period after tax 3.50 (17.35)(36.09)(138.39)(2.46)(145.95)(32.29)(272.94)Total Comprehensive Income for the period 3.37 (20.60)(36.23)(142.14)4.69 (142.72)(43.84)(286.23)Equity Share Capital 46.55 46.55 46.55 41.74 46.55 46.55 41.74 46.55 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet 2,273.02 2,445.80 Earnings Per Share (of Re. 1/- each)

Diluted

Notes: . The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of Stock Exchange www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of the Company www.pateleng.com

The above financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ('Ind AS') as prescribed under section 133 of the

Compnies Act, 2013 read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules as amended from time to time. The above results were reviewed by the

. The Company is continuously monitoring the situation caused by COVID - 19 and taking necessary steps to improve its effeciencies in execution and the

(0.40)

(0.40)

(0.87)

(0.87)

(3.23)

(3.23)

(0.01)

(0.01)

(3.29)

(3.29)

0.08

0.08

Audit Committee and approved and taken on record by the Board at their respective meetings held on August 06, 2021 . The company is engaged in the Engineering and construction industry which is seasonal in character. The company's margins in the quarterly results vary based on the accrual of cost, recognition of income in different quarters etc. due to the nature of its receipt of claims/awards. In view of this, financial results for the guarter are not comparable with guarterly/annual results

financial outcome. The company has assessed the impact of pandemic on its financials based on the external and internal informations available upto the date of approval of the financial result and expects to recover the carrying value of its assets. 5. The allotment Committee of the Company vide its meeting dated July 16, 2021 approved the allotment of 1,37,77,470 Equity shares of face value Re. 1 each at a price of Rs. 14.78 per share (i.e. price for conversion of debt into equity) to Canara Bank against One time Settlement executed with the Bank.

Figures for the quarter ended 31st March, 2021 are the balancing figures between the audited figures for the year ended 31st March, 2021 and the published Year-to-Date figures upto 31st December, 2020. The previous year figures have been regrouped / rearranged/recasted wherever necessary for the purpose of comparision.

For Patel Engineering Ltd.

The Company continue to maintain 100% asset cover based on the valuation report for the secured non convertible debentures issued by it.

Whole Time Director & CFO




(6.78)

(6.78)

(1.01)

(1.01)



Place: New Delhi

राष्ट्रपिता की 150वीं जयन्ती एवं स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर होंगे कई आयोजन, जिला कलक्टर ने तैयारियों की समीक्षा कर दिए आवश्यक निर्देश

राष्ट्रिपता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयन्ती एवं स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर अगस्त से अक्टूबर तक जयपुर जिले में आयाजित किए जाने वाले विभिन्न आयोजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए जिला कलक्टर श्री अन्तर सिंह नेहरा ने शुक्रवार को बैठक लेकर आवष्यक निर्देष प्रदान किए। उन्होंने सभी आयोजन में कोविड प्रोटोकॉल की पालना का ध्यान रखने के लिए अधिकारियों को निर्देषित किया।

नेहरा ने कहा कि महात्मा गांधी के आदर्षों को आमजन तक पहुंचाने के लिए इस दौरान कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी जिनमें 9 से 15 अगस्त तक अगस्त क्रान्ति सप्ताह मनाया जाएगा



जिसमें हिन्द स्वराज अपनाओ, सामाजिक सरोकार बढाओ, रैलियां एवं संगोष्ठियों का आयोजन, श्रमदान जैसे आयोजन

20 अगस्त से 26 अगस्त तक सद्भावना सप्ताह के दौरान नषा मुक्ति अभियान एंव सामाजिक सरोकार सप्ताह, आत्मषुद्धि हेतु उपवास कार्याक्रम एवं

विद्यालय स्तर पर या संस्थावार जिला स्तरीय कार्यक्रम गांधी भजन, एकल व सामृहिक गीत गायन के कार्यक्रम होंगे। इसी प्रकार 11 सितम्बर से 17 सितम्बर तक सत्याग्रह सप्ताह मनाया जाएगा जिसमें सार्वजनिक स्थानों एवं स्कूलों में महात्मा गांधी से सम्बन्धित लघु नाटिकाएं, कठपुतली कार्यक्रम, फिल्मों का प्रदर्षन,

चौम्ं/लोकमत। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक

पार्टी के प्रदेश महामंत्री छुटटन यादव ने

पंचायतीराज चनाव से पहले उपखण्ड में

100त वैक्सीनेशन को लेकर चौमूँ

उपखण्ड अधिकारी राहल जैन को

मुख्यमंत्री के नाम पत्र सौंपा। यादव ने

ाताया कि निर्वाचन आयोग ने चुनाव

करवाने की तिथि की घोषणा कर दी हैं,

चुनाव से पहले सरकार चुनावी क्षेत्रों में

संक्रमण के खतरे को ध्यान में रखते हए

यहां की जनता को समय रहते वैक्सीन

होंगी 12 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक गांधी सप्ताह मनाया जाएगा जिसमें गांधीजी के जीवन पर आधारित प्रदर्षनी का ब्लॉक स्तर पर एवं पंचायत समिति स्तर पर या विद्यालय स्तर पर आयोजन किया जाएगा। अतिरिक्त जिला कलक्टर पूर्व राजीव पाण्डेय ने बताया कि इस दौरान सार्वजनिक स्थलों पर सफाई के लिए श्रमदान षिविर, गांधीजी एवं अन्य महापुरुषों की फिल्मों का प्रदर्षन, बेरोजगारी समस्या के निवारण के लिए जल सचयन, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग भगीदारी एवं महातमा गांधी प्रषिक्षण केन्द्रों की स्थापना, महिला स्वयं सहायता

समूह एवं अन्य ग्रामीण इकाइयों द्वारा

बनाए गए सामान के विऋय के लिए

पंचायतीराज चुनाव से पहले चुनावी क्षेत्रों में पूरा करें वैक्सीनेशन

प्रतिशत वैक्सीनेशन करना होगा। तब ही

आम जनता कोरोना की तीसरी लहर से

मुकाबला कर पाएगी। लेकिन अगर

सरकार यहां शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन नहीं

कर पाएगी तो यहां भी कोरोना की चपेट

में आने से जनजीवन ,प्रभावित होगा।

इसलिए चुनाव से पहले पंचायत स्तर पर

वैक्सीनेशन की मांग की। इस मौके पर

लालचन्द झाझडा, पूर्व महासचिव कैलाश

यादव, विष्णु शर्मा, विनोद यादव, दीपक

बराला, राजू जाट, रामसिंह यादव, प्रमोद

निबन्ध लेखन, भाषण जैसी गतिविधियां

कस्तरबा हाट बाजार की स्थापना, गांधी साहित्य की बिक्री के लिए ई लाइब्रेरी, चल विऋय केन्द्र, गांधी केन्द्र की स्थापना तथा जिला स्तर पर गांधी वाटिका की स्थापना जैसे आयोजन भी किए जाएंगे।

इस मौके पर गांधीवादी विचारक एवं आयोजन के समन्वयक श्री सवाई सिंह ने गांधीजी के आदर्षों को जीवन में उतारने के लिए सभी आयोजनों को पूरी भावना के साथ सम्पनन करने की आवष्यकता बताई। उन्होंने बेरोजगारी दर करने और ग्रामीण अर्थव्यस्था को बढावा देने के लिए खादी अपनाने का भी आव्हान किया। बैठक में षिक्षा विभाग, महिला एंव बाल विकास विभाग, नगर निगम एवं अन्य कई विभागों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

जिले में राजकीय अधिकारियों, कर्मचारियों के अवकाश पर रोक

जयपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं जिला कलक्टर श्री अन्तर सिंह नेहरा ने जिले में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2021 की घोषणा होने के कारण शुक्रवार को एक आदेष जारी कर जिले में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समस्त प्रकार के अवकाष पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगा दी है। आदषानसार अधिकारी-कर्मचारी इस दौरान विशेष परिस्थितियों में ही अपने कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी कलक्टर कार्यालय कार्मिक प्रकोष्ठ से अनुमति प्राप्त करके ही अवकाष का उपभोग कर सकेंगे। सभी कार्यालयाध्यक्षों को भी आदेषित किया गया है कि वे यह सनिष्चित करेंगे कि पंचायत चनाव से सम्बन्धित डुयुटी आदेष की प्राप्ति के लिए जिम्मेदार कर्मचारी कार्यालय समय से पूर्व एवं पष्चात् एवं अवकाष के दिनों में भी सम्बन्धित कार्यालयों में उपस्थित रहें। आदेष की अवहेलना करने पर कार्यालयाध्यक्ष एवं सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

Rajasthan State Road Development And Construction Corporation I	Ltd., Jaipur
No. NIT/2021-22/7341-54 ई-निविदा सूचना संख्या 096/2021-22 Date	e: 05.08.2021
निम्नलिखित कार्यों के लिए केन्द्र/राज्य सरकार के अभियांत्रिकी विभागों द्वारा पंजीकृत एवं अनुभवी संवेदके में ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है:-	ों से निर्धारित प्रपत्र
कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रू.)
Construction of Medical College, and Upgradation of District Hospital into Teaching Hospital at Bharatpur. UBN: (1) RRC2122WLOB00178	9783.59 Lakh
Construction of Medical College, and Upgradation of Hospital at Bhilwara, Rajasthan. UBN: (2) RRC2122WLOB00183	6710.08 Lakh
ऑनलाईन निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की अवधि दिनांक : 04.08.2021 प्रात: 09.00 बजे से 02.09.2021 सार्य 0	6.00 बजे तक
निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र में निविदा शुल्क, धरोहर राशि डाउनलोड करने व खोलने की तारीख सहित विवरण एव http://eproc.rajasthan.gov.in, त्या http://roads.rajasthan.gov.in/rscr पर देखा जा सकता है। इन्सुक स्वेदव इत्ताक्षर के माध्यम से वेससाई http://eproc.rajasthan.gov.in/ पर पिनर डे करवाना आवश्यक है।	

पशुओं के साथ नहीं हो क्रूरता, गौशालाओं में चारा पानी की हो समुचित व्यवस्था

नागौर। पशुओं को पीटना, मारना, क्षमता से अधिक बोझा ढोना एवं पशओं को किसी भी प्रकार से पीढ़ा पहुंचाना, यातना देना आदि पश के साथ क्रूरता है, यह विचार अतिरिक्त जिला कलक्टर मोहनलाल खटनावलिया ने पशपालन विभाग द्वारा शक्रवार को आयोजित जिला पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक में व्यक्त किये। इस दौरान उन्होंने कहा कि पशु पक्षी वन्य जीव आदि से हमें सकारात्मक सोच रखते हुए मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। इसलिये बेसहारा पशुओं एवं पक्षियों को किसी भी प्रकार की हानि नहीं हो, इसका ख्याल रखते हुए उनके खान-पान कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर ने कहा कि पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय वाहनों में क्षमता से अधिक पशु ना भरें।

ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति करेगी जल का प्रबंधन

नागौर/लोकमत। केंद्र की महती योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत शुक्रवार को ग्राम पंचायत दुकोसी के सरपंच की अध्यक्षता में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति सदस्यों का एक दिवसीय प्रशिक्षण व आमुखीकरण कीयक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए दुकोसी सरपंच तुलसी देवी द्वारा समिति सदस्यों को टीमवर्क से काम करने व अधिक से अधिक लोगों को सहभागिता के लिए प्रेरित किया तथा जल बचत व जल संरक्षण के लिए संकल्प लिया गया। इस अवसर पर दुकोसी सरपंच ने बताया कि जन सहयोग से इस महती योजना जल जीवन मिशन के लक्ष्य को हम योजनाबद्ध तरीके से प्राप्त कर सकेंगे।

जयप्र/बीकानेर।

जलदाय विभाग के अधिकारियों द्वारा

प्रदेश में लोगों को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति

सुनिश्चित करने के लिए लोगों की मौजूदगी

में फील्ड टेस्टिंग किट के माध्यम से गणवत्ता

जांच की पहल का सकारात्मक असर देखने

को मिल रहा है। कई स्थानों पर विभाग के

अभियंताओं द्वारा फील्ड टेस्टिंग किट का

प्रयोग करते हुए मौके पर गणवत्ता जांच की

लगाई जानी चाहिए। पंचायत स्तर पर जाट, मुकेश यादव, बलदेव यादव कोरोना से बचाने के लिए सरकार को शत-७वां राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस

हाथकरघा वस्त्रों की भव्य सेल, 25 प्रतिशत की मिलेगी विशेष छूट

राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस के मौके पर राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम (आरएचडीसी) हाथकरघा वस्त्रों की भव्य सेल का आयोजन कर रहा है। आमजन को हाथकरघा उत्पादों से जोडने के लिए आयोजित इस सेल में 25 प्रतिशत की विशेष छूट दी जाएगी। एक सप्ताह चलने वाली यह सेल राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस, ७ अगस्त से आरंभ होकर 14 अगस्त तक जारी रहेगी। चौम् हाऊस और इंदिरा बाजार, जयपुर, बस स्टेण्ड के सामने स्थित दुकान नं. 4, अलवर, महाराजा टॉकिज के पास दुकान नं. 17, भीलवाड़ा, दुकान नं. 35, सेवाश्रम चौराहा, उदयपुर, 7वीं पाल रोड़, जोधपुर, छोटा तालाब के पास, जेपी मार्केट, कोटा और उद्योग केंद्र स्थित राणी बाजार, बीकानेर स्थित

आरएचडीसी की इकाईयों पर आयोजित सेल में कोटा डोरिया प्रिंटेड साड्यां, दूपट्टे, जेन्टस कुर्ते, प्लाजो, अजरक प्रिंटेड बेडशीट्स, ब्लॉक प्रिंटेड ड्रेस मटेरियल्स, बगरु और सांगानेरी प्रिंट आकर्षण का केंद्र होंगे। फेस्टिवल सीजन को देखते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त बुनकरों की बनाई नई साड़ियों का स्टॉक भी उपलब्ध रहेगा।

वहीं, राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ ने भी हाथकरघा उत्पादों पर पहले से दी जा रही 10 प्रतिशत छूट के साथ ही इस अवसर पर 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट देने का ऐलान किया है। अजमेरी गेट, पांच बत्ती और लक्ष्मी मंदिर सिनेमा के सामने हैंडलुम भवन, जयपुर, होप सर्कस, अलवर, सर्किट हाउस के पीछे, डीएसएम, बाडमेर, सत्यम कॉम्पलेक्स, आर. के. नगर, भीलवाड़ा,

राजीव दत्ता, सहायक अभियंता श्री दिलीप

तंवर और अपनी टीम के साथ खुद मौके पर

पहुंच गए। एसीई श्री शर्मा ने अपनी गाडी से

फील्ड टेस्टिंग किट निकाली और सभी

लोगों की मौजूदगी में पेयजल का नमूना

लेकर जांच की। इस पेयजल सैम्पल जांच

में पीएच, टीडीएस एवं क्लोरीन की मात्रा

निर्धारित मानकों के अनुरूप पाई गई। इस

कार्यवाही से मौके पर मौजूद लोगों पूरी तरह

बीकानेर में दूषित जल आपूर्ति के प्रकरण में एसीई पहुंचे मौके पर

फील्ड टेस्टिंग किट से की लोगों की मौजूदगी में पेयजल के

सैम्पल की जांच, निर्धारित मानकों पर सभी सैम्पल हुए पास

क्रियन दरवाजे के पास, ड्रंगरपुर, रेलवे स्टेशन के पास स्थित राजीव गांधी सहकार भवन, जोधपुर, उम्मेद मील के पास स्थित सुपर मार्केट, पाली, बजरिया स्थित बगडिया चेरिटेबल ट्रस्ट, सवाई माधोपुर और लिंक रोड़ पर नगर परिषद के पास, उदयपुर बिक्री केंद्रो पर इस छूट का लाभ लिया जा सकता है। इस अवसर पर संघ के जयपुर स्थित उत्पादन और बिक्री केंद्रो पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उद्योग आयुक्त अर्चना सिंह ने कहा कि कोटा डोरिया, पट्टू, केश, रेजा, लट्टा, बरडी जैसे हाथकरघा उत्पाद राज्य की विभिन्न परम्पराओं से जुड़े हैं, इनकी विदेशों में मांग बढ़ रही है। लेकिन, स्थानीय लोग भी इनसे अधिक से अधिक जुड़ें, इसके लिए राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस के अवसर पर यह छूट दी

नाम परिवर्तन

मैं बलबीर सिंह पुत्र श्री आशाराम जाति जाट निवासी राधास्वामी बाग चौमं जिला जयप राजस्थान का सशपथ बयान करता हँ कि -1. यह कि 'मनाली चौधरी'मेरी जाईन्दा पुत्री है 2. यह कि मैने मेरी पुत्री का नाम मनाली रं

बदलकर मनाली चौधरी रख लिया है। . यह कि भविष्य में मेरी पुत्री को मनाली चौधरी के नाम से जाना पहचाना जाये।

मैं उक्त शपथ ग्रहिता सशपथ सत्यापित करता है कि प्रस्तत शपथ पत्र में वर्णित तथ्य मेरी निजी जानकारी के अनसार सही एवं सत्य है। शपथ ग्रहित

🚟 बीकानेर नगर निगम ^{नंक : विद्युत/2021-22/7193} ई-निविदा सूचना सं. ०४/२०२१-२२/विद्युत नगर निगम कार्यालय, बीकानेर द्वारा विद्युत सम्बन्धित कार्यो (कुल 02 कार्य, राशि रूपये

14.37 लाख) हेतु इच्छुक सम्भरणकर्ता जो कार्य करने/सामग्री संभरण करने के लिए नुभवी हो, से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया से ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा कार्य से सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण एवं तिथि राज्य सरकार की ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in तथा नगर निगम बीकानेर की वेबसाईट www.bikanermc.org पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है तथा निर्धारित अवधि तक ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड की जा सकती हैं

(1). UBN Code: DLB2122WSOB11356 (2). UBN Code: DLB2122WSOB11358

आयुक्त, नगर निगम, बीकानेर

स्वर्ण **की प्राईवेट बिक्री हेतु सूचना** एतद्द्वारा समस्त संबंधित जन की जानकारी हेतू सूचना दी जाती है कि बैंक की अधोवर्णित शाखा में निम्नलिखित स्वर्ण ऋण खाते में बंधक रखे गए स्वर्ण आभूषण, जो विमोचन के लिए अतिदेय है तथा बार–बार सूचनाओं के बावजूद नियमित नहीं किये गए है, शाखा में दिनाव

24.08.2021 को बिक्री हेतू रखे जाएंगे।				
खाता संख्या	नाम व पता			
21226400011827	संतोष कुमार शर्माः मगध नगर चोमू जयपुर त्रिपोलिया चोमू 303802			
21226200000632 21226200000640 21226200000681 21226200000673	पूनम शर्माः 106 जलेसर का मोहल्ला पी आर पब्लिक स्कूल के पास अटेहपुरा जयपुर राजस्थान 303806			
21226400013468 21226400008070 21226400014102 21226400013815	गणेश राम 45 झूपा की धनीसुंदा की धानी जोबनेर जयपुर जयपुर 303328			
स्थान : चोमू , दिनांक : 07.08.2021	।			

AKSH OPTIFIBRE LIMITED

फेडरल बैंक लिमिटेड

शाखाः चोम्

Registered Office: F-1080, RIICO Industrial Area, Phase-III, Bhiwadi-301 019 (Rajasthan)

Corporate Office: A 32, 2nd Floor, Mohan Co- operative Indl. Estate, Mathura Road, New Delhi-110044

Live Smart Corporate Identification No. (CIN): L24305RJ1986PLC016132



			Rs. In	lakhs except	per share dat
S.		Q	Year Ended		
No.	Particulars	Jun/21 (Unaudited)	Mar/21 (Unaudited)	Jun/20 (Unaudited)	Mar/21 (Audited)
1.	Total income from operations	7,359.36	6,569.63	4,173.34	25,279.21
2.	Net Profit /(loss) for the period (before tax and exceptional items)	612.62	319.95	(511.28)	395.43
3.	Net Profit /(loss) for the period before tax (after exceptional items)	612.62	232.53	(511.88)	308.27
4.	Net Profit /(loss) for the period after tax (after exceptional items)	433.00	156.92	(343.05)	222.68
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	433.00	176.13	(343.05)	241.89
6.	Paid-up Equity Capital (Face Value Rs.5 each)	8,134.90	8,134.90	8,134.90	8,134.90
7.	Other equity				18,562.84
8.	Earnings Per Share (of Rs. 5/- each) Basic : Diluted:	0.27 0.27	0.10 0.10	(0.21) (0.21)	0.14 0.14

			Rs. In	lakhs except	per share d
S.		Qu	Year End		
No.	Particulars	Jun/21 (Unaudited)	Mar/21 (Unaudited)	Jun/20 (Unaudited)	Mar/21 (Audited
1.	Total income from operations	7,600.22	6,799.16	4,934.08	27,643.
2.	Net loss for the period (before tax and exceptional items)	84.26	(377.06)	(1,272.83)	(2,418.3
3.	Net loss for the period before tax (after exceptional items)	84.26	(464.48)	(1,273.43)	(2,505.5
4.	Net loss for the period after tax (after exceptional items)	(60.08)	(522.29)	(1,107.44)	(2,539.1
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	29.29	(818.25)	(1,157.59)	(2,428.9
6.	Paid-up Equity Capital (Face Value Rs. 5 each)	8,134.90	8,134.90	8,134.90	8,134.
7.	Other equity				2,181.
8.	Earnings Per Share (of Rs. 5/- each) Basic : Diluted:	(0.04) (0.04)	(0.32) (0.32)	(0.68) (0.68)	(1.5 (1.5

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations 2015. The full format of the Quarter ended results are available on the Company's website i.e. www.akshoptifibre.com and on the stock exchange websites i.e. www.bseindia.com & www.nseindia.com.

For and on behalf of the Board of Directors For Aksh Optifibre Limited

Dr. Kailash S. Choudhari DIN: 00023824

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, लूनकरनेसर (पंचायत समिति परिसर, लूनकरनसर)

दरभाष : 01528-271037 क्रमांक : अधि.अभि.लुण/नरेगा/निविदा/2021-22/68

Place: New Delhi Date : August 06, 2021

DIPR/C/7697/2021

ई-मेल xenwdsclun@gmail.com दिनांक :- 20/07/2021

अल्पकालीन ई निविदा सूचना संख्या 01/2021-22 (NIB-WSC2122A0203)

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जलग्रहण विकास एवं भू-सरंक्षण पंचायत समिति लूनकरणसर जिला बीकानेर के पत्रांक 248-

53 1	53 दिनाक 28.07.2021 द्वारा आमंत्रित निविदा निम्नानुसार है :-									
क्र. सं.	कार्य का नाम∕यूबीएन नं.	ग्राम पंचायत	लागत राशि लाखों में	बोली शुल्क (रू. में) 0075-00- 800-52-01	प्रोसेसिंग फीस (रू.में) मद 8658-00- 102-(16) [01]	डाउनलोड अपलोड करने की दिनांक व समय	निविदा पत्रावली जमा की दिनांक व समय	निविदा खोले जाने की दिनांक व समय		
1.	निर्माण सामग्री आपुर्ति/ WSC2122GLOB00371	दन्तौर	32.50	500	500					
2.	निर्माण सामग्री आपुर्ति/ WSC2122GLOB00372	17 केएचएम	32.50	500	500					
3.	निर्माण सामग्री आपुर्ति/ WSC2122GLOB00373	पूगल	45.00	500	500	दिनांक 30.07.21 से	दिनांक 10.08.21 को	दिनांक 11.08.21 को		
4.	निर्माण सामग्री आपुर्ति/ WSC2122GLOB00374	आडुरी	32.50	500	500	10.08.21 प्रात: 11:00	सायं 4:00 बजे तक	प्रात: 10:00 बजे से		
5.	निर्माण सामग्री आपुर्ति/	अमरपुरा	40.00	500	500	बजे तक		लगातार		

WSC2122GLOB00375 निविदा से संबंधित समस्त विवरण वेबसाईट https://eproc.rajasthan.gov.in & http:sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

(यशपाल सिंह पुनिया)

अधिशाषी अभियन्ता एवं कार्यक्रम समन्वयक (महानरेगा) जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण पंचायत समिति, लूनकरणसर

कार्यवाही की जा रही है। ऐसा ही एक संतुष्ट हो गए और उन्होंने जलदाय विभाग गुणवत्ता जांच को प्रमुखता देने के निर्देश दिए थे। एसीएस ने जलदाय विभाग में जेईएन से वाकया शुक्रवार को दोपहर में बीकानेर शहर द्वारा फील्ड टेस्टिंग किट से सार्वजनिक तौर दूषित पानी की शिकायत प्राप्त होने के पर के सभाषपरा क्षेत्र में देखने को मिला. जब ऊपर के सभी अधिकारियों को पर्याप्त संख्या पर त्वरित जांच की इस नई पहल की सराहना जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता जलदाय विभाग के कार्यालय में जन की। उल्लेखनीय है कि जलदाय मंत्री डॉ. में फील्ड टेस्टिंग किट उपलब्ध कराने के प्रतिनिधियों और निवासियों की ओर से (एसीई) अजय शर्मा, अधिशाषी अभियंता बी.डी कल्ला ने विभागीय समीक्षा बैठकों में लिए चीफ केमिस्ट को निर्देशित किया था। बांसवाड़ा में घाटोल के 24 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मैगनीज के भण्डार, नागौर-गंगानगर

जयपुर।

अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस व पेट्रोलियम डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया है कि जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया व माइंस व जियोलॉजी विभागीय के खनिज खोज कार्य की आरंभिक रिपोर्ट के अनुसार राज्य के बांसवाडा व राजसमंद में मैगनीज के विशाल भण्डार मिले हैं वहीं नागौर गंगानगर बेसिन के बीकानेर हनुमानगढ जिले के सतीपुरा, जैतपुरा, भारुसरी और लखासर में 2400 मिलियन टन पोटाश के भण्डार संभावित है। उन्होंने कहा कि पोटाश क्षेत्र में एमईसीएल से त्रिपक्षीय एमओयू कर व्यावहार्यता अध्ययन कराया जा रहा है वहीं इस बेल्ट में पोटाश खोज कार्य जारी है।

एसीएस माइंस डॉ. सुबोध



शुऋवार को सचिवालय में मैगनीज और पोटाश खोज कार्य प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जीएसआई द्वारा नागौर-गंगानगर बेसिन में पोटश के किए गए एक्सप्लोरेशन के परिणाम के आधार पर केन्द्र सरकार को पोटाश की रॉयल्टी व बिक्री दर तय करने के लिए लिखा गया है। उन्होंने बताया कि देश में पोटाश के भण्डार राजस्थान में ही मिले हैं और नागौर गंगानगर बेसिन में नए क्षेत्रों में पोटाश का खोज कार्य

जारी रखने व व्यावहार्यता

अध्ययन का कार्य साथ साथ किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जीएसआई द्वारा एक्सप्लोर किए गए क्षेत्र में ब्लॉक्स बनाने और खनन हेतु नीलामी की आवष्यक कार्यवाही की जा रही है। एक अनुमान के अनुसार पोटाश माना जा रहा है कि देश की पोटाश की आवश्यकता की पूर्ति इस बेसिन हो सकेगी और पोटाश की आयात की निर्भरता नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि इस बेल्ट में आधुनिकतम माइनिंग तकनीक सोल्युशन माइनिंग तकनीक से पोटाश का

खनन किया जाएगा।

कालाखुंटा, तामेसरा और रुपाखेडी सहित करीब 24 वर्ग किलामीटर बेल्ट में मैगनीज के विशाल भण्डार खोजे गए हैं। उन्होंने बताया कि इससे जुड़ी कालाखूंटा में तो मैगनीज की खान में खनन कार्य हो रहा है। उन्होंने बताया कि इसमें 2 लाख 12 हजार टन मैगनीज के भण्डार संभावित है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में जीएसआई और राज्य सरकार के माइंस व जियोलिजी विभाग द्वारा खोज कार्य जारी है। इसके अलावा राजसमंद में भी मैगनीज के भण्डार उपलब्ध है। एसीएस माइंस डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि बीकानेर के छोटी व बड़ी नाल में करीब 500 हैक्टेयर एरिया में बॉल क्ले और सिलिकोन उपलब्ध है।

जाएगा। निदेशक माइंस श्री केबी पण्ड्या ने बताया कि अगले सप्ताह जीएसआई के अधिकारियों के साथ उदयपुर में बैठक कर खनन खोज कार्य

सभी फील्ड अधिकारियों को प्रदेश के सभी

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सप्लाई

तथा निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी

प्रकार का समझौता नहीं करने पर जोर देते

रहे है। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव

(एसीएस) सधांश पंत ने भी गत दिनों एक

समीक्षा बैठक में सभी अधिकारियों को

फील्ड विजिट के दौरान अपनी गाड़ी में

सदैव टेस्टिंग किट रखने और पेयजल

प्रगति की समीक्षा की जाएगा। समीक्षा बैठक में अतिरिक्त प्रजेंटेशन दिया।

बेसिन के सतीपुरा, भारुसरी और लखासर में पोटाश : एसीएस माइंस डॉ. अग्रवाल डॉ. अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में बांसवाड़ा जिले में घाटोल क्षेत्र में ब्लॉक बनाकर कर ऑक्शन में आ रही बाधाओं को दूर किया

निदेशक जियोलॉजी प्रदीप अग्रवाल ने पोटाश पर प्रस्तुतिकरण देकर विस्तार से जानकारी दी। अतिरिक्त निदेशक जियोलॉजी एसएन डोडिया और सीनियर जियोलॉजिस्ट मनीष शर्मा ने मैगनीज खोज व खनन कार्य और बीकानेर से गिरिराज सिंह निर्वाण और राजीव चौधरी ने बॉलक्ले और सिलिकोन खोज कार्य व ब्लॉक्स का